

## ऋण स्थिरता और वनिमिय दर प्रबंधन

### प्रलिस के लयि:

**अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष**, वनिमिय दर गतशीलता, क्रेडिट रेटगि, भारत के बढ़ते ऋण स्तर से संबंधति परस्पर जुड़े कारक, **कर चोरी**, राजकोषीय उत्तरदायतिव और **बजट प्रबंधन अधनियम, 2003**, आईएमएफ का स्थरि व्यवस्था का वर्गीकरण ।

### मेन्स के लयि:

भारत के आर्थकि आउटलुक से संबंधति आईएमएफ के अनुमान, सतत ऋण प्रबंधन के लयि भारत जो उपाय कर सकता है ।

[स्रोत:द हट्टि](#)

### चर्चा में क्यों?

**अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund - IMF)** ने हाल ही में भारत पर अपनी वार्षकि अनुच्छेद IV परामर्श रपिरट जारी की, जसिमें **देश की ऋण स्थरिता** और **वनिमिय दर प्रबंधन** से संबंधति **महत्त्वपूर्ण मुद्दों का अवलोकन** कयिा गया है ।

### भारत के आर्थकि आउटलुक से संबंधति IMF के अनुमान क्या हैं?

- **ऋण स्थरिता:** IMF ने भारत की दीर्घकालकि ऋण स्थरिता के बारे में चतिा व्यक्त की ।
  - इसने अनुमान लगाया क भारत का सामान्य सरकारी ऋण, जसिमें केंद्र और राज्य दोनों शामिल हैं, **संभावति रूप से वतितीय वर्ष 2028 तक वशिष रूप से प्रतकिल परस्थितियों में सकल घरेलू उत्पाद के 100% तक बढ़ सकता है ।**
- **ऋण प्रबंधन की चुनौतियों:** रपिरट में अधिक **वविकपूर्ण ऋण प्रबंधन प्रथाओं** की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है, जसिमें **जलवायु परविरतन शमन लक्ष्यों** को प्राप्त करने और प्राकृतकि आपदाओं के खिलाफ लचीलापन बढ़ाने के लयि वतिपोषण की महत्त्वपूर्ण आवश्यकता पर बल दयिा गया है ।
  - भारतीय वति मंत्रालय ने **IMF के ऋण अनुमानों का वशिष** कयिा और उन्हें आसन्न वास्तवकिता के बजाय सबसे खराब स्थतिके रूप में खारजि कर दयिा ।
- **वनिमिय दर गतशीलता:** IMF ने दसिंबर 2022 से अक्टूबर 2023 के लयि भारत की वास्तवकि वनिमिय दर व्यवस्था को **"फ्लोटगि"** से **"स्थरि व्यवस्था (stabilized arrangement)"** में पुनर्वर्गीकृत कयिा ।
  - यह पुनर्वर्गीकरण RBI के हस्तक्षेप के कारण **रुप के मूल्य में नयितरति उतार-चढाव** के बारे में नषिकर्ष शामिल हैं ।
- **स्थरि क्रेडिट रेटगि:** सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में सराहना पाने के बावजूद **भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटगि** काफी समय से स्थरि बनी हुई है ।
  - फचि रेटगिस और एसएंडपी ग्लोबल रेटगिस जैसी एजेंसियों ने कमज़ोर राजकोषीय प्रदर्शन, बोझलि करज़ और कम प्रत व्यक्त आय के बारे में चतिाओं का हवाला देते हुए **वर्ष 2006 से भारत की क्रेडिट रेटगि को 'बीबीबी-स्थरि दृष्टिकोण के साथ'** पर बनाए रखा है ।

### वैश्वकि ऋण परदृश्य क्या है?

- **बढ़ता वैश्वकि ऋण:** वैश्वकि स्तर पर, सार्वजनकि ऋण में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है, जो **वर्ष 2022 में 92 टरलियन अमेरिकी डॉलर** को पार कर गया है, जो कवर्ष 2000 के बाद से चार गुना से अधिक की वृद्धि है, जो वैश्वकि सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि को पार कर गया है ।
  - संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, वर्ष 2022 में 3.3 अरब लोग ऐसे देशों में रहते हैं जो शकिषा या स्वास्थ्य की तुलना में ब्याज भुगतान पर अधिक व्यय करते हैं ।
  - वकिसशील देशों की कुल हसिसेदारी लगभग 30% है, जनिमें से लगभग 70% **चीन, भारत और ब्राज़ील** के लयि ज़मिमेदार है, जो बड़े पैमाने पर **महामारी, जीवन-यापन संकट** और **जलवायु परविरतन** जैसे वविधि कारकों से प्रेरति है ।
- **वकिसति और वकिसशील देशों के बीच ऋण वषिमता:** **अफ्रीका** सहति वकिसशील देश, वकिसति देशों की तुलना में काफी अधिक उधार लेने की लागत का सामना करते हैं ।

- उधार दरों में यह असमानता विकासशील देशों के लिये ऋण स्थिरता से समझौता करती है, जिससे सार्वजनिक राजस्व के सापेक्ष ब्याज खर्च में वृद्धि होती है।

## भारत का वर्तमान ऋण परदृश्य क्या है?

- सरकार का वर्तमान ऋण स्तर: मार्च 2023 तक केंद्र सरकार का ऋण ₹155.6 ट्रिलियन था, जो सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 57.1% था। इस बीच, राज्य सरकारों पर सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 28% ऋण था।
  - वित्त मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2022-23 में भारत का सार्वजनिक ऋण-से-GDP (debt-to-GDP) अनुपात 81% है। यह, FRBM लक्ष्य द्वारा नरिदष्टित स्तरों से कहीं अधिक है।
    - FRBM अधिनियम में वर्ष 2018 के संशोधन ने केंद्र, राज्यों और उनके संयुक्त खातों के लिये क्रमशः 40%, 20% तथा 60% पर ऋण-GDP लक्ष्य नरिदष्टित किये।
- भारत के बढ़ते ऋण स्तर से संबंधित परस्पर जुड़े कारक:
  - उच्च राजकोषीय घाटा: सरकार लगातार अपनी आय से अधिक व्यय करती है, जिसके कारण घाटे को उधार के माध्यम से पूरा किया जाता है। यह घाटा नमिन कारणों से उत्पन्न हो सकता है:
    - उच्च व्यय परतबिद्धताएँ: सामाजिक कल्याण कार्यक्रम, सबसिद्धि और रक्षा व्यय सरकारी परवियय में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं।
    - धीमी राजस्व वृद्धि: कर सुधारों से राजस्व संग्रह में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई है, जिससे राजस्व-व्यय में अंतर उत्पन्न हो गया है।
  - वैश्विक भू-राजनीतिक घटनाएँ: रूस-यूक्रेन युद्ध और बढ़ती कमोडिटी कीमतों जैसी घटनाओं से आर्थिक व्यवधान एवं उच्च आयात लागत हो सकती है, जिससे सरकार को स्थिरता बनाए रखने के लिये उधार लेने हेतु मजबूर होना पड़ सकता है।
  - अनौपचारिक अर्थव्यवस्था और कर रसाव: भारत की बड़ी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था कुशल कर संग्रह के लिये चुनौतियाँ पेश करती है।
    - कृषि और छोटे व्यवसायों जैसे क्षेत्रों में कर चोरी तथा औपचारिकता की कमी राजस्व सृजन को सीमित करती है, जिससे संभावित रूप से सरकार को ऋण वित्तपोषण पर निर्भर रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
  - गारंटी और आकस्मिकताएँ: सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा लिये गए ऋण या आकस्मिक देनदारियों हेतु सरकार की गारंटी, जैसे सार्वजनिक-नजि भागीदारी से संभावित नुकसान, अप्रत्यक्ष रूप से ऋण में काफी वृद्धि करते हैं।
  - वनिमिय दर में उतार-चढ़ाव: वनिमिय दरों में उतार-चढ़ाव वदेशी मुद्रा-मूल्य वाले ऋण की सेवा की लागत को प्रभावित करते हैं, जिससे संभावित रूप से समग्र ऋण बोझ बढ़ जाता है।
- भारत में ऋण प्रबंधन हेतु वधान:
  - राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 (FRBM अधिनियम): FRBM अधिनियम एक भारतीय कानून है जो सरकार के राजकोषीय संचालन में वित्तीय अनुशासन लाने और देश के राजकोषीय घाटे को कम करने के लिये बनाया गया है।
    - FRBM का लक्ष्य केंद्र और राज्यों के लिये वशिष्ट ऋण-GDP लक्ष्य नरिधारित करना है।
      - हालाँकि महामारी से उत्पन्न व्यवधान ने नरिदष्टित सीमा को पार करते हुए ऋण-GDP अनुपात को बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।
    - इसके अलावा इसके अधिनियमन के कई वर्षों के बावजूद, भारत सरकार FRBM अधिनियम के लक्ष्यों को पूरा करने के लिये संघर्ष कर रही है।

## अस्थायी वनिमिय दर गतशीलता को स्थिर व्यवस्था से क्या अलग करता है?

- अस्थायी वनिमिय दर:
  - बाज़ार-संचालित: मुद्रा का मूल्य न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप के साथ, वदेशी मुद्रा बाज़ार में पूरी तरह से आपूर्ति और मांग से नरिधारित होता है।
  - उच्च अस्थिरता: आर्थिक समाचारों, घटनाओं या बाज़ार की धारणा के जवाब में वनिमिय दर में काफी उतार-चढ़ाव हो सकता है।
  - लचीलेपन में वृद्धि: व्यवसाय और व्यक्ति बाज़ार-नरिधारित वनिमिय दरों के माध्यम से बदलती आर्थिक स्थितियों के साथ तालमेल बैठा सकते हैं।
- स्थिर व्यवस्था:
  - वशिद्ध रूप से अस्थायी से अधिक प्रबंधित: अत्यधिक अस्थिरता को दूर करने या मुद्रा के लिये लक्ष्य सीमा बनाए रखने हेतु सरकार या केंद्रीय बैंक कभी-कभी वदेशी मुद्रा बाज़ार में हस्तक्षेप कर सकता है।
  - मध्यम अस्थिरता: शुद्ध फ्लोट की तुलना में अधिक स्थिरता का लक्ष्य, लेकिन फरि भी कुछ हद तक उतार-चढ़ाव स्वीकार करना।
  - पूर्वानुमान की पेशकश: व्यवसाय और व्यक्ति अधिक स्थिर वनिमिय दर वातावरण के साथ योजना बना सकते हैं।
- स्थिर व्यवस्था का IMF का वर्गीकरण:
  - IMF एक वनिमिय दर व्यवस्था को एक स्थिर व्यवस्था के रूप में वर्गीकृत करता है जब यह नरिधारित करता है कनिमिय दर 6 महीनों में 2% बैंड से आगे नहीं बढ़ी है और यह स्थिरता बाज़ार की स्थितियों के बजाय बाज़ार के हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप हुई है।

## सतत् ऋण प्रबंधन के लिये भारत क्या उपाय कर सकता है?

### ■ अल्पकालिक: राजकोषीय समेकन:

- लक्ष्मि सुधार: सब्सिडी को सुव्यवस्थिति करना, सार्वजनिक कर्षेत्र के उद्यमों में सुधार करना तथा प्रशासनिक अक्षमताओं को कम करना एवं FRBM अधिनियम के लक्ष्यों का सख्ती से अनुपालन करना ऋण चुकोती व लाभकारी नविश के लिये संसाधनों की बचत कर सकता है।
- बेहतर कर दक्षता: कर प्रशासन को सुदृढ़ करने तथा कर चोरी की रोकथाम से अत्यधिक उधार लिये बिना राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है।

### ■ दीर्घकालिक: विकासोन्मुख रणनीतियाँ:

- कौशल विकास और शिक्षा: शिक्षा तथा कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से मानव पूंजी में नविश करने से उत्पादकता एवं प्रतस्पर्द्धात्मकता में वृद्धि होती है जिससे उच्च आर्थिक विकास होता है तथा कराधान में सुधार होता है।
- नरियात संवर्द्धन: नरियात बाजारों में विविधता लाने, उच्च मूल्य वाले नरियात को प्रोत्साहति करने तथा प्रतस्पर्द्धात्मक चुनौतियों का समाधान करने से वदिशी मुद्रा आय को बढ़ावा मलि सकता है जिससे संभावति रूप से बाह्य ऋण की आवश्यकता कम हो सकती है।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

**??????:**

### प्रश्न1. नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजये: (2018)

1. राजकोषीय दायतिव और बजट प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम.) समीक्षा समतितिके प्रतविदन में सफिरशि की गई है कविवर्ष 2023 तक केंद्र एवं राज्य सरकारों को मलिाकर ऋण-जी.डी.पी. अनुपात 60% रखा जाए जिसमें केंद्र सरकार के लिये यह 40% तथा राज्य सरकारों के लिये 20% हो।
2. राज्य सरकारों के जी.डी.पी. के 49% की तुलना में केंद्र सरकार के लिये जी.डी.पी. का 21% घरेलू देयताएँ हैं।
3. भारत के संवधिान के अनुसार यदकिरिी राज्य के पास केंद्र सरकार की बकाया देयताएँ हैं तो उसे कोई भी ऋण लेने से पहले केंद्र सरकार से सहमतलि लेना अनविर्य है।

### उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: C

**??????:**

प्रश्न1. उत्तर-उदारीकरण अवधतिके दौरान, बजट नरिमाण के संदर्भ में, लोक वयय प्रबंधन भारत सरकार के समक्ष एक चुनौती है। स्पष्ट कीजिये। (2019)